



Date: 31/10/2020

To,
The Listing Compliance Department,
BSE Limited,
P. J. Tower, Dalal Street,
Mumbai – 400001

To,
The Listing Compliance Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400051

Sub.: Newspaper publications given pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref.: PC Jeweller Limited (Scrip Code: 534809, Symbol: PCJEWELLER)


Dear Sir / Madam,

Please find enclosed herewith the newspaper publications given by the Company pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 on October 31, 2020 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) regarding notice of the meeting of the Board of Directors of the Company to be held on November 9, 2020, inter-alia, to consider and approve the unaudited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter and six months ended September 30, 2020.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For PC Jeweller Limited


(SANJEEV BHATIA)
Chief Financial Officer



Encl.: As above

PC Jeweller Limited

24/2708, BANK STREET, KAROL BAGH, NEW DELHI - 110 005 (INDIA) Ph.: 011 - 47104810 Fax : +91-11-28720811

Regd. & Corporate Off: C - 54, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi - 110 092 Ph: 011 - 49714971 Fax : 011 - 49714972

info@pcjeweller.com • www.pcjeweller.com • CIN: L36911DL2005PLC134929

12 NATION

FB using India experience

FACEBOOK CEO MARK Zuckerberg has said steps taken by the social media giant have helped protect the integrity of more than 200 different elections around the world, including in India, and

BPCL puts Bina refinery expansion plan on hold till privatisation

BHARAT PETROLEUM has put on hold its plans to expand its Bina refinery and install a secondary unit at its Mumbai refinery to boost efficiency pending privatisation of the company, its head of finance N Vijaygopal said.

The government wants to sell its 53.29% stake in BPCL, the country's second-largest state-run refiner, to raise funds to rein in a ballooning fiscal deficit. "It is for the government to decide whether they want and have the flexibility to add refining capacity," Vijaygopal told an analyst conference. BPCL wanted to install a residue fluid catalytic cracker at the Mumbai refinery and connect the plant with a new site where it wanted to build an ethylene cracker. It wanted to expand the Bina refinery in central India to 300,000 barrels per day from 156,000 bpd along with a petro-chemical plant. —REUTERS

GOLKONDA ALUMINIUM EXTRUSIONS LIMITED

(Formerly known as Alumeo India Extrusion Limited)

Regd. Office: A-2/78-B, Keshav Puram, New Delhi-110035, India
NOTICE

Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on 9th November, 2020 at New Delhi, to consider and take on record, inter-alia, the unaudited financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2020.
For Golkonda Aluminium Extrusions Limited
Place: New Delhi
Date: 30th October, 2020
Whole-time Director
Sd/-

STABLE TRADING COMPANY LTD.

CIN: L27204WB1979PLC032215
Regd. Office: 2/5 Sarat Bose Road, Sukh Sagar, Flat No. 8A, Kolkata-700020
Website: www.stabletrading.in
Email: secretarial@stabletrading.in

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements), Regulations, 2015 that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 10th November, 2020, inter-alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2020.

The said notice is also available on the website of the Company i.e. www.stabletrading.in and the Calcutta Stock Exchange i.e. www.cse-india.com.
For Stable Trading Company Ltd.
Khusboo Prasad
Company Secretary

GULMOHAR INVESTMENTS & HOLDINGS LIMITED

CIN: L65993DD19822PLC013956
Regd. Office: 32/A, IInd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
Tel: 01127860881
Email: gulmoaharinvested@gmail.com
Website: www.gulmoaharinvestments.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements), Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, November 11, 2020 at 01:00 P.M. at the registered office of the Company, inter-alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020 and any other business with permission of Chairman.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company (www.gulmoaharinvestments.com) & website of the stock Exchange(s) i.e. (www.nseindia.in) & (www.cse-india.com)
For & on behalf of the Board
Gulmoahar Investments and Holdings Limited
Place: New Delhi
Date: 30.10.2020
Kiran Mittal (Director)
DIN: 00749547

CHALET

Chalet Hotels Limited

CIN: L55101MH1986PLC038538
Registered Office: Rameha Tower, Plot No. C-30, Block 'G', Next to Bank of Baroda, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051.
Tel: +91 22 - 26564000 Facsimile: +91 22 - 26565451
Email: companysecretary@chalet-hotels.com Website: www.chalet-hotels.com

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulations 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements), Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Tuesday, November 10, 2020**, to consider and approve, inter-alia, the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and six months ended **September 30, 2020**.

This Notice may be accessed on Company's website at www.chalet-hotels.com and also on the website of the Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For Chalet Hotels Limited
Sd/-
Christabelle Baptista
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: October 30, 2020



PC Jeweller Limited

Regd. Office: C-54, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi-110092
Phone: 011-49714971, Website: www.pcjeweller.com
Fax: 011-49714972, E-mail: info@pcjeweller.com
Corporate Identity Number: L36911DD2005PLC134929

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements), Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, November 9, 2020, inter-alia, to consider and approve the un-audited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter and six months ended September 30, 2020.

In view of the same in terms of the Company's Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Insiders, Trading Window for trading in the shares of the Company has already been closed w.e.f. September 30, 2020 and shall remain closed till November 11, 2020.

This Notice is available on BSE Limited website (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited website (www.nseindia.com) and also on the Company's website (www.pcjeweller.com) under the Investors section.

Place: Delhi
Date: 30/10/2020
For PC Jeweller Limited
Sd/-
(SANJEEV BHATIA)
Chief Financial Officer



Hero MotoCorp Limited

Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj - Phase-III, New Delhi - 110070
CIN: L35911DL1984PLC017354 | Phone: 011-4604420
Fax: 011-46044399 | Email: secretarial@heromotocorp.com
Website: www.heromotocorp.com

PUBLIC NOTICE FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATES

Members of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp Ltd. (Company) are hereby informed that the Original Share Certificates, details of which are given hereunder have been reported lost/spaced/stolen/not received and that pursuant to request received from concerned shareholders, the Company intends to issue duplicate share certificate in lieu of the said original Share Certificate (Face Value Rs.2/-) in their favour.

Folio No.	Shareholders Name	Value	Districtive Nos.	Certificate No.(s)	No. of Shares
HMLD140971	REENA GUPITA	Rs.2/-	161094766 - 161094890	519241	125
VINAY GUPITA	REENA GUPITA	Rs.10/-	19523875 - 19523884	295983	20
			19523895 - 19523899	295984	05

Any person having objections to issue of duplicate Share Certificates, as mentioned herein above, may submit the same, in writing, with the Company marked to the 'Secretarial Department' at its Registered Office or send an email at secretarial@heromotocorp.com within 7 days from the date of publication of this Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby cautioned against dealing in the above mentioned Share Certificates.

Place: New Delhi
Date: 30/10/2020
For Hero MotoCorp Ltd.
Sd/-
Neeraja Sharma
Company Secretary & Chief Compliance Officer

FINANCIAL RISKS, REFULLY.

Disclosures: 1996, The Unaudited NOTC dated September 30, 2020 Financial loads/scheme-financials) has been...
Date: October 30, 2020
Place: Mumbai

RITECH LIMITED

Number: L24219DL1985PLC020126
Head, Karon Bagh, New Delhi - 110005. | Tel. No.: 011-26554551/57
M G Road, Near Dronacharya Metro Station, Gurugram - 122 002, Haryana.
investors@ritech.co.in | Website: www.ritech.co.in
Company Secretary and Compliance Officer

IN CONJUNCTION WITH THE LETTER OF OFFER DATED OCTOBER 15, 2020 ("LOF") AND THIS CORRIGENDUM AND NOT DEFINED HEREIN SHALL HAVE THE SAME MEANING AS

